

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 623]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2023 — अग्रहायण 29, शक 1945

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2023 (अग्रहायण 29, 1945)

क्रमांक — 11259/वि.स./विधान/2023. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2023 (क्रमांक 15 सन् 2023) पुरःस्थापित के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./—

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 15 सन् 2023)
छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2023

वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | |
|--|--|
| <p>संक्षिप्त नाम.</p> <p>वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की संचित निधि में से राशि 1,29,92,70,98,800 रूपयों का दिया जाना।</p> <p>विनियोग.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) अधिनियम, 2023 कहलाएगा। 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक के राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2023 के अनुसूची स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुये राशि 1,29,92,70,98,800 (बारह हजार नौ सौ बयानवे करोड़ सत्तर लाख अनठानवे हजार आठ सौ) रूपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए; जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे। 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी। |
|--|--|

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित विधान सभा द्वारा अनुदत्त	से अनधिक संचित निधि पर भारित	राशियां	योग
(1)	(2)	(3)			
		₹	₹		₹
01 सामान्य प्रशासन	राजस्व	100	0		100
	पूंजी	25,00,00,000	0		25,00,00,000
03 पुलिस	राजस्व	1,70,00,00,100	0		1,70,00,00,100
06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	100	0		100
07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,00,00,100	0		5,00,00,100
10 वन	राजस्व	7,13,00,000	0		7,13,00,000
	पूंजी	60,00,000	0		60,00,000
12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	6,34,81,70,000	0		6,34,81,70,000
13 कृषि	राजस्व	21,02,00,00,200	0		21,02,00,00,200
14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	50,00,100	0		50,00,100
17 सहकारिता	राजस्व	200	0		200
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	1,45,51,34,000	0		1,45,51,34,000
	पूंजी	33,97,50,000	0		33,97,50,000
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी	7,01,10,00,000	0		7,01,10,00,000
21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,96,42,000	0		3,96,42,000
23 जल संसाधन विभाग	पूंजी	0	7,76,05,000		7,76,05,000
26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,000	0		1,000
27 स्कूल शिक्षा	राजस्व	500	0		500
29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	1,00,00,00,000	67,75,000		1,00,67,75,000
	पूंजी	0	5,50,00,000		5,50,00,000
30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	18,99,50,00,100	0		18,99,50,00,100
31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	100	0		100
36 परिवहन	राजस्व	3,00,00,000	0		3,00,00,000
41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	37,40,14,08,700	0		37,40,14,08,700
	पूंजी	1,61,92,50,000	0		1,61,92,50,000
44 उच्च शिक्षा	राजस्व	5,00,00,400	0		5,00,00,400
47 कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व	1,25,00,00,000	0		1,25,00,00,000
55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	6,20,30,50,000	0		6,20,30,50,000
64 अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	13,14,75,10,400	0		13,14,75,10,400
	पूंजी	4,04,55,00,100	0		4,04,55,00,100
65 विमानन विभाग	राजस्व	25,00,00,000	0		25,00,00,000
69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग -	राजस्व	600	0		600

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		योग
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	
(1)	(2)	(3)		
		₹	₹	₹
नगरीय कल्याण				
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व 4,02,39,20,000	0	4,02,39,20,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व 97,60,80,000	0	97,60,80,000
		पूंजी 2,50,00,00,000	0	2,50,00,00,000
योग	राजस्व	1,14,01,62,18,700	67,75,000	1,14,02,29,93,700
	पूंजी	15,77,15,00,100	13,26,05,000	15,90,41,05,100
वृहद योग		1,29,78,77,18,800	13,93,80,000	1,29,92,70,98,800

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,
दिनांक 19 दिसम्बर, 2023

विष्णुदेव साय,
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

“संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा